



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक**

साइरियल प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

*Published by Authority*

**भाद्र 27, बुधवार, शाके 1941–सितम्बर 18, 2019  
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941–September 18, 2019**

**भाग 6 (क)**

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 6, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/8951 :-**In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Bhindar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Bhindar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government**

कार्यालय नगर पालिका मण्डल भीण्डर जिला-उदयपुर

प्रफोर्मा - क

क्र.स.	वार्ड सं.	विवरण
1	1	मदनसागर से प्रारम्भ होकर गुलाब खाँ के मकान को सम्मिलित करते हुए दायी-दायी और भीलों की बस्ती को लेते हुए आश्रम होकर दायी-दायी और हनुमान जी की बगीची होते हुए जलदाय विभाग के कार्यालय से गुजरते हुए ३.प्रा. कन्याशाला को सम्मिलित कर पश्चिम की तरफ दायी-दायी और की आबादी लेते हुए, श्री भगवत् सिंह जी शक्तावत के कुए वालों मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः घुमकर दायी-दायी और पन्नालाल नागदा के कुए से गुजरते हुए दायी-दायी और की आबादी को लेते हुए कालिका माताजी का मन्दिर ओड समाज के मकानों से गुजरते सोहन सिंह जी के कुए को सम्मिलित करते हुए सी.उ.मा.बा. विद्यालय को लेकर पास वाली गली में हुसैन न्यारगर के मकान को लेते हुए पुनः बाहर आम रोड पर आकर उत्तर में हनुमान जी के रास्ते की कुलिया आबादी सम्मिलित करते हुए जमनालाल आमेटा के मकान को लेते हुए व सामने श्री बाबुलाल औदिच्य के मकान वाली साईड को सम्मिलित करते हुए (बोहरों की नई आबादी की दोनों साईड

		को) सम्मिलित करते हुए पुनः धनराज जी नागदा के मील के कोनर वाली गली को छोड़कर चैराये से अन्दर जाकर नुरुदिन पिंजारा के मकान को लेते हुए इसके आसपास की आबादी को लेते हुए गोपा जी कीर के मकान को सम्मिलित कर बायी-बायी और की आबादी लेते हुए पुनः बाहर आकर पूर्व की ओर सादुल खाँ के मकान को सम्मिलित कर पुनः उत्तर दिशा में घुमकर सुल्तान शहिद मार्ग के अन्दर प्रकाश यादव के मकान को लेते हुए बायी-बायी और की आबादी लेते हुए शक्तावत साहब के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः पश्चिम की तरफ मुड़कर गुलाब खाँ के मकान तक समाप्त इस बिच की कुलिया आबादी।
2	2	श्री बाबुलाल औंदिच्य के मकान को छोड़कर नागदे के मकान को लेते हुए चाँदपोल अन्दर घुसकर बायी-बायी और रोशनलाल वया के मकान को लेते हुए बायी और स्व. गिरधरलाल सामौता के मकान को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा में मुड़कर स्व. लक्ष्मीलाल साथी जी के मकान को लेते हुए बायी-बायी और की आबादी लेते हुए पु.अ. हातिम अली बोहरा के मकान को लेते हुए बोहरवाड़ी में बड़ी बिल्डिंग से गुजरते हुए बायी-बायी और सेफुदीन पिता कादरबक्ष के मकान को लेकर पुनः उत्तर में मुड़कर नुरुदिन/कासमअली के मकान को लेते हुए आजाद बाठेड़ा की दुकान को सम्मिलित कर पुनः रोड पर पश्चिम दिशा में घुमकर बायी-बायी और मीरा हुसैन मोहम्मद हुसैन के मकान को लेकर किरों के मकान लेकर बायी-बायी और धनराज जी नागदा के मकान को लेते हुए पुनः दक्षिण में मुड़कर गली के अन्दर हकिम हातिमअली जी के मकान की दोनों साईड की आबादी लेते हुए गली से बाहर आकर पुनः दक्षिण में मुड़कर हातिम अली काशम अली के मकान को लेते हुए शब्बीर हुसैन बोहरा के मकान को सम्मिलित कर रोड क्रोस कर शिवनाथ सिंह जी शक्तावत के मकान को सम्मिलित कर बायी और की आबादी को लेते हुए पीर बावजी से पुनः मुड़कर रास्ते-रास्ते उत्तर दिशा में जाकर शब्बीर हुसैन बोहरा के मकान को छोड़ते हुए पुनः मुड़कर दायी-दायी और हातिम अली के मकान को लेते हुए पूर्बीयों के मकान को सम्मिलित करते हुए दायी-दायी और इस्माईल अली पुर्व प्राचार्य के मकान को लेते हुए भवर लाल गर्ग के मकान को लेते हुए पीर बावजी को लेकर पुनः पश्चिम दिशा में चाँदपोल बाहर निकलते हुए मकानों को सम्मिलित कर नागदा के मकान तक (इस बिच की कुलिया आबादी)
3	3	राजमहल से शुरू होकर उत्तर दिशा में बायी-बायीओर की आबादी लेते हुए प्रभुलाल सोनी की दुकान को लेते हुए पश्चिम में घुमकर श्रीनाथ जी की गली दोनों ओर की आबादी लेते हुए बायी-बायीओर महात्मा की गली की आबादी को लेते हुए, बायी-बायीओर सामौता की पोल को लेकर बायी-बायीओर की आबादी को लेते हुए

		बंशीलाल वया के मकान को लेकर दक्षिण दिशा में मुड़कर बायी-बायीओर मुन्ड़ड़ा के मकान व कुण्डाई वालो, भंवरलाल नागदा के मकानों को लेते हुए गली से पुनः बाहर आकर बायी-बायी और पछोकड़ा की हवेली की आबादी लेते हुए बायी-बायीओर रोशनलाल वेद के मकान को लेते हुए नव ज्योति विद्यालय के पास गली की दोनों ओर की आबादी लेते हुए पुनः बाहर आकर बायी-बायी और की आबादी लेते हुए पूर्व में मुड़कर राय चन्द नागदा की बिल्डिंग से होते हुए निर्भयसिंह के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः उत्तर में मुड़कर नाथुलाल, मोहनलाल नेगड़िया वालों के मकानों को सम्मिलित करते हुए बायी-बायी ओर की आबादी लेते हुए राजमहल के वहाँ समाप्त। (इस बिच की कुलिया आबादी)
4	4	आमेटा समाज के महादेव जी से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा में दायी-दायी ओर की आबादी लेते हुए पटवार मण्डल को सम्मिलित करते हुए फतहलाल जी पचोरी के मकान को लेते हुए श्री कृष्णकान्त आमेटा के मकान को लेते हुए दायी-दायी ओर श्री नटवर जी दर्जी के मकान को लेते हुए त्रिलोक चन्द खटीक के मकान को सम्मिलित करते हुए दायी-दायी ओर बाहर निकलकर पश्चिम दिशा में मुड़कर पुनः भैरूलाल पिता बाबरू जी खटीक के मकान को लेते हुए दायी-दायी ओर की आबादी लेते हुए पुनः स्व. भंवरलाल के मकान के कोर्नर से मुड़ते हुए उत्तर दिशा में दायी-दायी ओर की आबादी लेते हुए श्री न्यारगर के मकानों की आबादी सम्मिलित कर पदमपुरा की गली में घुमकर पूर्व दिशा में दायी-दायी ओर सोनियों के नोहरे को सम्मिलित करते हुए शिवचन्द आमेटा के मकान को सम्मिलित करते हुए कृष्णचन्द आमेटा के मकान को छोड़ते हुए पुनः गली में घुमकर पदमपुरा में दायी-दायी लक्ष्मीलाल आमेटा के मकान को लेते हुए श्री धर्मराज आमेटा के मकान को लेते हुए रोड़ पर बाहर आकर उत्तर दिशा में मोहरम चबुतरा, वेदों के मकान वाली दोनों साईडों को सम्मिलित कर पानी की टंकी के निचे वाली साईड में सुलभ शौचालय को लेकर ऊंकार लाल नागदा के मकान की गली दोनों साईड लेते हुए टॉवर वाली गली की दोनों साईड लेकर पुनः स्व. हिरालाल, शान्तीलाल नागदा के मकान को लेते हुए बायी-बायीओर की आबादी लेते हुए चाँदपोल दरवाजे के वहाँ वेणीचन्द नागदा के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः मुड़कर दक्षिण दिशा में आम रास्ते-रास्ते आकर पानी की टंकी को लेते हुए इस साईड की सम्पुर्ण गलियों की आबादी लेते हुए दायी-दायी ओर रतनजी, भैरूलाल जी नागदा के मकान को लेते हुए पूर्व पार्श्व बगदीलाल के मकान को सम्मिलित करते हुए आगे दायी-दायी ओर ढालावतों की पोल को सम्मिलित करते हुए आमेटा महादेव के मन्दिर के वहाँ समाप्त। (इस बिच की कुलिया आबादी)

5	5	<p>श्री उंकार पिता दोला जी खटीक के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर भैरूलाल खटीक के मकान को लेते हुए खुमाण पिता चमना खटिक के मकान को लेते हुए पूर्व में घुमकर बायी-बायी ओर बिज माताजी के पिछे वाली साईड की दोनों गलिया लेते हुए बाहर आकर उत्तर में भैरूलाल खटिक के मकान को लेते हुए बायी-बायी और तुलसी बाई सालवी के मकान को सम्मिलित करते हुए बायी-बायी और के मकान लेते हुए स्व. गोवर्धनलाल सालवी के मकान को लेते हुए बायी-बायी और सोहनलाल सालवी के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः घुमकर बीज माताजी के मन्दिर को सम्मिलित करते हुए स्व. किशनलाल खटिक के मकान के नुककड़ से पूर्व में घुमकर पश्चिम दिशा में आम रास्ते-रास्ते चलकर पुनः मुड़कर दक्षिण दिशा श्री कैलाश जी आमेटा के मकान को लेते हुए श्री गणेश पिता केला खटीक के मकान को लेते हुए दायी-दायी ओर की आबादी लेकर वन विभाग के नाके को सम्मिलित कर पुनः पश्चिम में मुड़कर रास्ते-रास्ते श्री सोहनलाल सालवी के मकान को छोड़कर पुनः दक्षिण में घुमकर बायी-बायी और श्री मांगीलाल खटीक के मकान को लेते हुए बायी-बायी और मुशीं खां के मकान को लेते हुए श्री इन्द्रसिंह चौहान की हवेली के मकानों को लेते हुए बायी-बायी ओर गिरवरपोल के अन्दर उत्तर दिशा में मुड़कर श्री चन्दनमल लुणदिया की दुकान को सम्मिलित करते हुए श्री उंकारलाल तेली की चक्की को लेते हुए होलिथड़ा अन्दर घुसकर श्री मिठूलाल के मकान को लेते हुए बायी-बायी और की आबादी को सम्मिलित करते हुए श्री शक्तावत साहब की हवेली के मकानात को लेते हुए बायी-बायी और श्री राजमल गांगावत के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः होलिथड़ा के बाहर आकर उत्तर दिशा में मुड़कर धोबी की दुकान लेते हुए बायी-बायी और की आबादी को लेते हुए पदमपुरा में मुड़कर श्री रतन लखारा की दुकान को लेकर झामकलाल ठाकुडिया के मकान को लेते हुए बायी-बायी और श्री उंकारलाल पिता झुमा भोई के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः खटीकों के मोहल्ले में दक्षिण की तरफ घुमकर उंकार पिता देवा व हुड़ीबाई, परशराम भोई के मकान को लेते हुए श्री राधेश्याम पिता खिमा खटीक के मकान को सम्मिलित करते हुए उंकार दोला के मकान के वहां समाप्त।(इस बिच की कुलिया आबादी)</p>
6	6	गिरवरपोल बाहर स्व. श्री उदयलाल प्रजापत के मकान को लेते हुए दक्षिण दिशा में दायी-दायी ओर गायरियों के मकान को लेते हुए, अहीरों के मकान को लेते हुए, दायी-दायी ओर ध्यानडुंगरी को सम्मिलित करते हुए, जुनाखेड़ा के अन्दर रास्ते-रास्ते शिकारवाड़ी के पिछे से गुजरते हुए क्रेशर रोड जाकर दक्षिण दिशा में आम रास्ते-रास्ते जाते हुए कलकीपुरा, खंजुरियों का खेड़ा की संम्पुर्ण आबादी को

		सम्मिलित करते हुए, बिज माताजी के रास्ते श्री कन्नाजी के मकान को लेते हुए कर्णसिंह के मकान को सम्मिलित करते हुए बीज माताजी को सम्मिलित करते हुए आसपास की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए रास्ते-रास्ते आकर खादी भण्डार के आसपास की आबादी को सम्मिलित करते हुए, अणगोरा वाले के मकान के आसपास की आबादी को लेते हुए, गिरवरपोल घाटी के निचे बड़लावाड़ी को लेते हुए दायी-दायी और क्रेशर रोड, ध्यानडुंगरी तक की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए, पुनः मुड़कर उत्तर दिशा में दायी-दायी और की आबादी, भगवान मेघवाल के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और खेमराज भोई के मकान को लेते हुए, दायी-दायी और धोला भाटा की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए, बाहर रोड पर आकर पुनः पुर्व दिशा में मुड़कर दायी-दायी और की आबादी लेते हुए, लेट्रीन के वाडे को सम्मिलित करते हुए, पुनः पुर्व दिशा में मुड़कर दायी-दायी और की आबादी लेते हुए, लेट्रीन के वाडे को सम्मिलित करते हुए, पुनः रोड क्रोस कर शंकर कण्डारा के मकान के आसपास की आबादी लेते हुए, स्व याकुब खान के मकान को लेते हुए गिरवरपोल श्री उदयलाल प्रजापति के मकान के वहाँ पर समाप्त। (इस बिच की कुलिया आबादी)
7	7	कालिका माताजी का मेन दरवाजा (गि.पो. स्कुल के पास) के अन्दर घुसकर आम रास्ते-रास्ते कालिका माताजी के मन्दिर की दोनों ओर की आबादी लेते हुए आम रास्ते-रास्ते श्री बाबरसिंह हुकादार के मकानों को लेते हुए, केशर बाग के पास जाने वाली आम गली में मुड़कर आगे रास्ते-रास्ते पाणुद रोड क्रास कर दक्षिण दिशा में मुड़कर बायी-बायी और की आबादी लेते हुए, विरवालियों का खेड़ा की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए, पुनः पाणुद रोड क्रास कर भीण्डर की तरफ मुड़कर बायी-बायी और कमो की वेली, हलोपड़ा की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करते हुए, बायी-बायी और शिकारवाड़ी व जुना खेड़ा की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए, पुनः रोड क्रास कर भीण्डर की तरफ मुड़कर श्री बद्रीलाल चैबीसा के मकान को लेते हुए, दायी-दायी और की आबादी लेते हुए, गिरवर पोल स्कुल को सम्मिलित करते हुए कालिका माताजी के मेन दरवाजे के वहाँ पर समाप्त। (इस बिच की कुलिया आबादी)
8	8	चौहानों का खेड़ा, आरियों की भागल, टेरमिया, मउड़ी वाले घर, कांकर वाले घरों की बस्ती, शाहजी भागल इन बस्तीयों की तितर-बितर बस्सी हुई सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित किया गया। (इस बिच की कुलिया आबादी)
9	9	शाहजी की भागल वदामी पत्नी गिरधारी के मकान से प्रारम्भ होकर डामरों के घरों की बस्ती लेते हुए भीण्डर बस स्टेण्ड की ओर बायी-बायी और बाबुलाल सेवक के मकान को लेते हुए, महादेव के मन्दिर को सम्मिलित कर रामेष्वरधाम की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करते हुए, बायी-बायी और गमेला तालाब को लेते हुए कैलाश धर्मषाला को सम्मिलित कर, पाणुद मार्ग की तरफ मुड़कर सूरजपोल स्कुल को

		<p>सम्मिलित करते हुए बायी-बायी ओर तेली समाज के नोहरे को लेते हुए बायी-बायी और नृसिंह कालोनी की सम्पुण आबादी को लेते हुए बायी-बायी ओर तिकलिया बावड़ी के आसपास की आबादी को लेते हुए, मोगियों के कुए की आबादी को लेते हुए, नवलखा रोड के वहां पर नई बस्ती भोईयों के मकान को व आसपास की आबादी लेते हुए पुनः घुमकर नवलखा रोड होते हुए खाकलदेव जी के आसपास की आबादी लेते हुए, गणेश कालोनी की सम्पुण आबादी को सम्मिलित कर पुनः बाहर आकर बायी-बायी ओर गुसाई के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर सुख-भगवान जी तेली (साहु) के मकान को लेते हुए, गिरवरपोल बोहर श्री घनश्याम जी तेली की दुकान को लेते हुए पुनः मुड़कर बायी-बायी ओर भजन लाल प्रतापत के मकान सम्मिलित करते हुए बायी-बायी ओर स्व. हिम्मतसिंह जी के मकान को लेते हुए सूरजपोल की तरफ बायी-बायी ओर स्व. हसन खां के मकान को लेते हुए बालुलाल प्रजापत के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर सूरजपोल पेषाब घर के वहां तक तथा सूरजपोल धैराये से कानोड़ रोड की तरफ पूर्व में मुड़कर दोनों नई ब्रह्मपुरीयों की आबादी लेते हुए बायी-बायी ओर रेगर समाज के मन्दिर को लेते हुए बायी-बायी ओर आम रोड की तरफ चलकर भीण्डर शमषान को सम्मिलित करते हुए, भवर जी सुथार के मकान को लेते हुए, पेट्रोल पम्प को लेते हुए, नगर पालिका को लेते हुए आसपास की आबादी को लेते हुए, नगरपालिका के पीछे वाजणी काकर के आसपास कर्णसिंह, चमनसिंह जी व दायमा के मकान को सम्मिलित करते हुए उदयपुर-कानोड़ मार्ग पर आकर श्री दिलिप सिंह हुकादार के मकान, मानसिंह राठौड़ के मकानात व उससे आसपास दोनों दोनों साईडों के मकान को सम्मिलित कर व सुरेन्द्रसिंह जी की होटल को लेते हुए, शक्ति नगर को लेते हुए पुनः शाहजी की भागल डामरों के घर के पास आकर समाप्त। (इस बिच की कुलिया आबादी)</p>
10	10	<p>सूरजपोल अन्दर सुमतीलाल डवारा के मकान को लेकर, नायकवाड़ी की तरफ बायी-बायी ओर की आबादी लेते हुए, मोहनलाल सुथार के मकान को सम्मिलित करते हुए बायी-बायी ओर की आबादी लेते हुए श्री शरीफ मोहम्मद के मकान को लेते हुए श्री मदनसिंह पिता शिवनाथ सिंह के मकान को लेते हुए, बायी-बायी ओर की आबादी लेते हुए, श्री महावीर वक्तावत की दुकान को लेते हुए, गिरवरपोल दरवाजे के बाहर निकलकर, श्री पंकज कुमार, सुन्दरलाल की दुकान सम्मिलित करते हुए बायी-बायी ओर श्री भजा लाल प्रजापत की दुकान को लेकर रोड क्रास कर माताजी की तरफ जाने वाले रास्ते, घनश्याम तेली के मकान को लेते हुए, श्री लालचन्द अहीर के मकान के नोहरे को सम्मिलित कर पुनः वहां से घुमकर रास्ते आम चलकर आते हुए पुनः गिरवरपोल के अन्दर आकर नायकवाड़ी जाने वाले रास्ते को</p>

		लेते हुए, चन्दपाल सिंह के मकान को लेते हुए बायी-बायी और बशीर मोहम्मद पिता मन्जुर मोहम्मद के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और श्री ललित कुमार जैन के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और के मकानात को लेते हुए बायी-बायीओर रामद्वारा के पास से होते हुए श्री जीतमल तेली के मकान को लेते हुए बायी-बायीओर मस्जिद को लेते हुए, श्री दशरथ चौबीसा के मकान को लेते हुए श्री घनश्याम लाल चौबीसा के मकान को लेकर सुमतीलाल डवारा के मकान के वहां पर समाप्त। (इस बिच की कुलिया आबादी)
11	11	विधवा आश्रम को लेते हुए बायी-बायी और सेठजी की पोल की आबादी लेते हुए कुम्हारों की गली की दोनों ओर की आबादी लेते हुए बाहर रोड पर आकर दक्षिण दिशा में घुमकर रोशन लाल कंठलिया के मकान को लेते हुए बायी-बायी और की आबादी को लेते हुए ढोलियों की गली में घुमकर बायी-बायीओर की आबादी लेते हुए प्रेम सिंह सिसोदिया के मकान को लेकर शोभालाल भावसार के मकान को लेते हुए गली में मुड़कर केसर सिंह झाला के मकान को लेते हुए बायी-बायी और की आबादी लेते हुए जुगल किशोर अहीर के मकान तक पुनः गली में मुड़कर सरवर खां के मकान को को लेते हुए फतह मोहम्मद के मकान को लेते हुए वकिल साहब के मकान से पुनः गली में मुड़कर भंवर सिंह झाला के मकान को लेते हुए बायी-बायी और नन्द लाल जैन के मकान को लेते हुए विमल कंठलियां के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः गली से बाहर आकर दक्षिण दिशा में मुड़कर महावीर कंठलिया के मकान को लेते हुए बायी और के मकानात लेकर धर्मावतों की गली में मुड़कर पेशाब घर को लेते हुए बायी-बायी और शंकर आमेटा के मकान को लेकर रतन लाल लखारा के मकान को लेते हुए गली से बाहर अन्जुम सैयद के मकान को लेकर ऐजाज भाई के मकान को लेकर बायी-बायी और की गली की सम्पूर्ण आबादी लेकर गली के बाहर वजिर मास्टर सा. के मकान से पुनः मुड़कर बायी-बायी और की आबादी लेते हुए शौकत मोहम्मद के मकान को लेकर धर्मावतों की गली में भोईयों की बस्ती की सम्पूर्ण आबादी लेकर धर्मावतों की गली व मेघवालों की गली की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए नायकवाडी वाले रास्ते पर आकर स्व. जुमा मेघवाल के मकान को लेकर दांयी दांयी और की आबादी लेते हुए श्रीमती प्रतापी पत्नी देवा जी खटिक के मकान को लेते हुए आम रोड पर आकर पुनः उत्तर दिशा में मुड़कर भोई समाज महादेव जी को लेते हुए अन्दर गली में घुसकर गली के दोनों ओर की आबादी लेते हुए पुनः रोड पर आकर उत्तर दिशा में घुमकार दांयी दांयी और स्व. इन्द्र लाल धर्मावत के मकान को लेते हुए शान्ति लाल धर्मावत के मकान को लेते हुए खुबचन्द जी सिंधवी की दुकान को लेकर यहां से सीधे रास्ते

		कुम्हारों की गली के नुक्कड़ पर जाकर स्व. आदेश्वर लाल कंठालिया की दुकान को लेते हुए अशोक लिखमावत के मकान को सम्मिलित करते हुए अशोक आवोत की दुकान को लेते हुए दांयी दांयी ओर ललित कुमार के मकान को लेकर शाहजी की गली में प्रवेश कर पूर्व दिशा में मुड़कर दांयी दांयी ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए बसन्ती लाल जी लिखमावत की पोल की सम्पूर्ण आबादी लेकर बाहर आकर पुनः पूर्व दिशा में मुड़कर दांयी ओर की आबादी लेते हुए सुन्दर लाल लिखमावत के मकान तक की आबादी लेते हुए रोड पर जाकर विधवा आश्रम पर समाप्त । इस बीच की कुलिया आबादी ।
12	12	शाहजी की गली के अन्दर स्व. मांगी लाल लिखमावत के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर की आबादी लेते हुए गोवर्धन लाल लिखमावत के मकान की आबादी लेते हुए बाहर निकलकर बांयी बांयी ओर श्री भगवती लाल नाई के मकान को लेकर शाहजी की बावड़ी के वहां से अन्दर जाकर रामद़वारा को लेते हुए दांयी दांयी ओर की आबादी लेते हुए गली से बाहर आकर राम खिलोना की पोल वाली सम्पूर्ण आबादी लेकर मोहनदास के मकान को लेते हुए आम रास्ता सूरजपोल जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़कर चैबीसा समाज के नोहरे को व मेली बावड़ी को सम्मिलित करते हुए पुनः मुड़कर हनुमान जीकी गली में प्रवेश कर रास्ते रास्ते शाहजी की बावड़ी पर आकर भगवती लाल चौबीसा के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर नाथू लाल जी के मकान को लेकर धाबायान एवं तेलियो के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर मांगीलाल के मकान से घुमकर बांयी ओर तम्बोली की गली की आबादी को लेते हुए बांयी बांयी ओर के मकानात को लेकर जय शंकर के मकान से घुमकर बांयी बांयी ओर खिमावतों की पोल की आबादी को लेकर हनुमान जी की गली में देवरी को लेकर पश्चिम दिशा में मुड़कर बांयी बांयी ओर की आबादी लेते हुए अजावतों की पोल लेते हुए नरसिंह पुरा समाज की दुकाने से घुमकर नाना लाल दक के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर दोलामोची के मकान पचोरियान मोहल्ला में दोनों ओर की आबादी लेते हुए मुन्दड़ों को पोल लेते हुए शाहजी की गली में नुक्कड़ पर समाप्त । इस बीच की कुलिया आबादी ।
13	13	साठडिया बाजार में ओपासरा समाज के नोहरे की दुकान को लेते हुए उत्तर दिशा में बांयी बांयी ओर की आबादी को लेते हुए पारस नागोरी के मकान को सम्मिलित करते हुए आदेश्वर लाल कंठालिया के मकान को लेते हुए पश्चिम दिशा में ओपासरो की गली में मुड़कर बांयी बांयी ओर चुन्नी लाल दर्जी के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर चांदमल कंठालिया के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर भूत

		<p>बंगले को लेते हुए पुनः गली से मुड़कर नागदा के मकान को लेते हुए नटवर लाल जी सोनी के मकान को सम्मिलित करते हुए बांयी बांयी और शान्ति लाल ताजावत के मकान को लेते हुए आम रास्ते पर आकर उत्तर में मुड़कर ओपासरों के मन्दिर को सम्मिलित करते हुए बांयी बांयी और पन्ना लाल टेलर के मकान को सम्मिलित करते हुए दर्जियों की पोल की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए बांयी बांयी और सरदार मल लिखमावत के मकान को सम्मिलित करते हुए बांयी बांयी और पिन्टू दक के मकान को लेकर बांयी बांयी और तकियों की बड़ती के सामने चारभुजा जी की गली में घुसकर बायी-बायी और खिमावतों की पोल के मकान लेते हुए बांयी बांयी और गोपाल कृष्ण सोनी के मकान को लेते हुए बायी-बायी और की आबादी लेते हुए मन्दावतों की पोल की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए बाहर आकर आम रास्ते गली में दक्षिण दिशा में मुड़कर हिरालाल/सोहनलाल के मकान को लेते हुए बायी-बायी और की आबादी को लेते हुए स्व. श्री हिरा लाल कुमावत की पोल की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए विष्णु सोनी के मकान को सम्मिलित करते हुए पदमपुरा में सुरेश जैन के मकान की गली को लेते हुए श्री लक्ष्मीलाल के मकान को लेकर बांयी बांयी और अशोक धर्मावत के मकान को लेकर स्व. भेरुलाल आमेटा के मकान को लेते हुए गली में प्रवेश कर बांयी बांयी और की आबादी लेते हुए श्री शान्ति लाल कंठलियां के मकान को लेते हुए बांयी बांयी और सूरजमल बोहरा के मकान को सम्मिलित करते हुए ओसवाल समाज के नोहरे को लेकर समाज की दूकान के वहा समाप्त। इस बीच की कुलिया आबादी।</p>
14	14	<p>रावलीपोल पानी की सार्वजनिक प्याउ से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा में बांयी बांयी और के मकानात लेते हुए बांयी बांयी और की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए श्री भेरुलाल सोनी के मकान को सम्मिलित कर पूर्व दिशा में गली में प्रवेश कर बांयी बांयी और की आबादी लेते हुए माताजी की पोल की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए बांयी बांयी और प्रेम पोरवाल के मकान को लेते हुए चारभुजा जी मन्दिर की गली की दोनों ओर की आबादी लेते हुए स्व. नक्षत्र लाल पोखरना के मकान को लेते हुए श्री नृसिंह लाल सोनी के मकान को लेते हुए बाहर रोड पर उत्तर दिशा में पीरबावजी को लेते हुए कन्हैलाल आमेटा के मकान को लेते हुए बांयी बांयी और सदर बाजार में रोड पर आकर पश्चिम दिशा में मुड़कर बांयी बांयी और श्री पुष्कर लाल चौबीसा के मकान को लेते हुए कांजोतों की गली की आबादी लेते हुए बांयी बांयी और नन्दावतों की पोल की सम्पूर्ण आबादी लेकर बाहर आकर बांयी बांयी और गोदडोतों की गली की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए रावलीपोल चौक के दोनों ओर की आबादी गणेश जी की देवरी व चांदमल कंठलिया की दूकान व हातिम अली</p>

		बोहरा किरणे वाले की दूकान व जैन मन्दिर के पिछे वाली गली को लेते हुए सार्वजनिक प्याउ पर समाप्त। इस बिच की कुलिया आबादी।
15	15	मुरलीधर जी की गली में प्रवेश कर मूरलीधरजी के मन्दिर को लेते हुए बायी-बायीओर पश्चिम दिशा में मूरलीधर जी मन्दिर की सम्पुर्ण आबादी लेते हुए मूरलीधर जी की गली में पुर्व वाली साईड में श्री हिरालाल पिता रामकिशन के मकान से प्रारम्भ होकर बायी-बायी ओर मुरली भाई रेडियों वाले के मकान से माताजी की गली की सम्पुर्ण आबादी कैलाश भोजावत के घर से शौभालाल के घर से गली के बाहर आकर बद्रीलाल भोजावत पूर्व पार्षद के मकान को लेते हुए, (मूरलीधर जी की गली की दोनों साईड की सम्पुर्ण आबादी लेते हुए ) भट्टो की गली की सम्पुर्ण आबादी को लेते हुए, नृसिंह भगवान के मन्दिर को लेते हुए राम नारायण जी के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर की आबादी लेते हुए, भरत जी व्यास के घर को सम्मिलित कर मस्जिद के कोर्नर से मुड़कर रोड़-रोड़ आकर नृसिंह भगवान के मन्दिर के सामने शान्ताबाई पत्नी सोहनलाल के मकान से प्रारम्भ होकर दयाल जी के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर बद्रीलाल जी प्रिन्स के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर यमुना शंकर धर्मावत के मकान को लेकर पुनः मोहनी बाई सुथार के मकान को लेते हुए पुनः नृसिंह भगवान की गली से बाहर निकलकर पश्चिम में मस्जिद की दुकाने व मस्जिद को लेकर कोर्नर से दक्षिण दिशा में घुमकर मोड़ीराम सुथार के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर लुहारों की गली को लेकर बायी-बायी ओर ललित व्यास के मकान को लेते हुए पुष्कर जी पण्डिया के मकान को सम्मिलित करते हुए, बाहर आकर हिरालाल के मकान के वहाँ पर समाप्त। इस बिच की कुलिया आबादी।
16	16	नृसिंह जी मन्दिर के पास श्री जगदीशलाल अजावत के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर पूर्व दिशा में सूरजपोल की तरफ मुड़कर बायी-बायी ओर की आबादी लेते हुए, जेतावतों की गली की दोनों ओर की आबादी को लेते हुए चन्द्र सिंह सामर के मकान को लेते हुए, अम्बेडकर मार्ग के कोर्नर पर आकर उत्तर दिशा में मुड़कर सामरों की पोल को सम्मिलित करते हुए, बायी-बायी ओर नृसिंहलाल चौबीसा के मकान को लेते हुए, बायी-बायी ओर भंवरलाल वेद के मकान को लेते हुए, चौबीसा शिवनाथ जी चौबीसा के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर गली में दक्षिण में मुड़कर श्री बगदीलाल वेद (अंधा) के मकान को लेते हुए, बायी ओर नारायणसिंह मराठा के मकान को लेते हुए, बायी-बायी ओर सोहनलाल के मकान को लेते हुए, बायी-बायी ओर फतहलाल चौबीसा के मकान को सम्मिलित कर पुनः उसी गली में उत्तर में मुड़कर श्री प्यारचन्द गांछा के मकान को छोड़कर, इससे आगे वाले मकान

		<p>को लेते हुए बायी और श्री मोहनलाल चौधरी जी के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और भैरूलाल वेद के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और की आबादी को सम्मिलित करते हुए, बाहर गली के नुक्कड़ पर श्री शंकरलाल तेली के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और भैरूलाल रेगर के मकान को लेते हुए, श्री हिरालाल के मकान को लेते हुए अन्दर गली में घुमकर भागीरथ रेगर व बंशीलाल रेगर के मकान को व मांगीलाल सालवी के मकान को लेते हुए रेगर समाज के चौक (मन्दिर) में आमने सामने गली में पश्चिम में मुड़कर बायी-बायी और रेगर समाज के चौक में जाकर दक्षिण में मुड़कर नेणु रेगर के मकान को लेते हुए, रेगर समाज के मन्दिर को व पूरे रेगर समाज की इस मन्दिर चौक के आस पास वाली गतियों की आबादी को लेते हुए, हरिजन बस्ती को लेते हुए प्यार चन्द गाछा के मकान को लेकर हुक्मी चन्द तेली के मकान को लेते हुए, बाहर रोड पर आकर पश्चिम दिशा में मुड़कर जगदीशलाल अजावत के मकान तक समाप्त। (इस बिच की कुलिया आबादी)</p>
17	17	<p>सूरजपोल चैपाटी से प्रारम्भ होकर भारत विजय होटल को लेते हुए बायी-बायी और श्री बद्रीलाल सुथार के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और लक्ष्मण गिरी वकिल के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और सामरिया के मकान को लेते हुए, लोखन की गली में मुड़कर पश्चिम दिशा दांतों के दवाखाने को लेते हुए श्री बद्रीलाल चैबीसा सिमेन्ट वाले के मकान को लेते हुए बायी-बायी और रजिया टेन्ट हाउस की दुकान को लेकर पूर्व में मुड़कर स्व. नृसिंह चैबीसा के मकान को लेकर बायी-बायी और उदयलाल भरावा के मकान को लेते हुए, हरिजन बस्ती व रेगर समाज की सम्पुर्ण बस्ती को लेते हुए, पुनः बाहर आकर दक्षिण दिशा में मुड़कर लौहार के मकान को लेते हुए, रजिया टेन्ट हाउस के मकान को लेते हुए, कोनर पर जाकर पूर्व में मुड़कर श्री बंशीलाल सोनी के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और अगवान के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और गंगाराम रेगर पूर्व पार्शद के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और की आबादी लेते हुए, रामनारायण चैबीसा के मकान को लेते हुए, चौधरी जी के मकान/दुकान को सम्मिलित करते हुए, बायी-बायी और प्रेम जी पण्डिया के मकान को लेते हुए, रामचन्द्र जी चैबीसा भांग वाले की दुकान को सम्मिलित करते हुए, सूरजपोल दुध डेयरी को लेते हुए, सूरजपोल चैपाटी बाहर भारत विजय होटल पर समाप्त। (इस बिच की कुलिया आबादी)</p>
18	18	<p>पन्ना मो. के मकान से प्रारम्भ होकर बायी-बायी और के मकान को लेते हुए स्व. भुरालाल जी वैद्यराज के मकान को लेते हुए, बायी-बायी और श्री नटवर जी आमेटा के मकान को लेकर अन्दर वाली गली में दोनों ओर की आबादी लेते हुए, पुनः गली में बाहर आकर सावरिया सोनी के मकान को लेते हुए, पिपली वाली गली के दोनों</p>

		<p>ओर की आबादी लेते हुए, बाहर आकर स्व. नारायण जीनगर के मकान को लेते हुए गली के बाहर दक्षिण दिशा में मुड़कर बायी ओर की आबादी लेते हुए, चैहानों की पोल की सम्पुर्ण आबादी लेते हुए, पूर्णिमा रेस्टोरेन्ट को लेते हुए गली में प्रवेश कर नागौरीयों की गली व सोनियों की गली की सम्पुर्ण आबादी लेते हुए पुनः बाहर आकर दक्षिण दिशा में मुड़कर रामकरण जी सोनी की दुकान को लेते हुए, बायी-बायीओर की आबादी लेते हुए स्व. भगवतसिंह जी शक्तावत की हवेली को लेते हुए, बड़ी पोल की समस्त आबादी लेते हुए, लम्बी गली की आबादी को लेते हुए, बायी-बायी ओर मुरलीधर जी की मन्दिर गली के नुककड़ तक एंव अन्दर गली में प्रवेश कर मुरलीधर जी के मन्दिर की गली के दोनों ओर की आबादी को छोड़ते हुए रास्ते- रास्ते चलते हुए पुष्करलाल चौबीसा के पोल में प्रवेश कर बाहर लुहारों की गली में जाकर स्व. राधावल्लभ चौबीसा के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर अंसार मोहम्मद मंसुरी के मकान को सम्मिलित कर पन्ना मो. के मकान तक जाकर समाप्त। (इस बीच की कुलिया आबादी)।</p>
19	19	<p>अब्दुल सतार मंसुरी की दुकान को लेते हुए बायी-बायी ओर जगदीश लाल सुथार के मकान को लेते हुए मुड़कर नुरुदिन मंसुरी के मकान को लेकर बायी-बायी ओर रावलो के मकानात लेते हुए, बहादुरसिंह के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर झालीसा की हवेली की सम्पुर्ण आबादी लेते हुए बायी-बायी ओर मेनरोड़ पर आकर दक्षिण दिशा में मुड़कर श्री अब्बास अली बोहरा की दुकान को लेते हुए, बायी-बायी ओर नरेन्द्र दक के मकानात को लेते हुए मोचियों के मकान लेते हुए भैरव गली के पास इकबाल हुसैन की दुकान को लेते हुए बायी-बायी ओर के मकानात लेते हुए, चावड़ा सा के पोल की सम्पुर्ण आबादी लेते हुए बाहर निकलकर दक्षिण दिशा में मुड़कर भीमसिंह चावड़ा की दुकान को लेते हुए, मांगीलाल सोनी की दुकान लेते हुए अन्दर गली में पूर्व दिशा में मुड़कर रामकरण जनकपुरी जी सोनी के मकानात लेते हुए बायी-बायी ओर के मकानात लेते हुए, दायमा की पोल के मकानात लेते हुए, सुथारों के मन्दिर की गली में प्रवेश कर बंशीलाल सुथार के मकान को लेते हुए, शंकरदास के मकान को सम्मिलित करते हुए बायी-बायी हेमेन्द्र नगरची के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर भैरवगली में नुककड़ तक जाकर पुनः गली में मुड़कर पूर्व दिशा की तरफ शब्बीर हुसैन बोहरा की दुकान लेते हुए, ढोलियों के देवरे को लेते हुए बायी-बायी ओर मदन जी सोमानी के मकान को लेते हुए, सुनिल नागौरी के मकान को लेते हुए, सुथारों के मन्दिर को लेते हुए, बायी-बायी ओर बाहर निकलकर पूर्व में गिरीराज भाणावत के मकान को लेते हुए, बायी-बायी ओर लुहारों के मन्दिर को लेते हुए, अब्दुल सतार के मकान को लेकर अब्दुल सतार की दुकान</p>

		पर समाप्त। (इस बीच की कुलिया आबादी)।
20	20	सदर बाजार भगवती लाल वाणावत की दूकान से प्रारम्भ होकर बायी-बायी और चलते हुए श्री माधवानन्द जी वैष्णव के मकान को सम्मिलित करते हुए बायी-बायी और सिगलीघरों की गली से होते हुए रंग लाल फान्दोत के मकान से फान्दोतों की गली को लेते हुए मठ की गली को लेते हुए इन सभी गलियों के आमने सामने की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए बायी-बायी और फतहलाल जी मेहता के मकान को लेते हुए बोहरवाड़ी मे पश्चिम की तरफ मुड़कर बायी-बायी और बोहरा समाज की पुरानी मस्जिद को लेते हुए बांयी बांयी आम रास्ते बोहरवाड़ी में आकर दक्षिण दिशा में मुड़कर हकिम (भंगार के धन्दे) वाले के दूकान/मकान को लेते हुए बांयी बांयी और वैद्यराज शिजाउददीन के मकान को लेते हुए पुरोहित बाड़ी की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए स्व. शंकर चव्हाण के मकान को सम्मिलित करते हुए बायी-बायी और डूंगरियों के घर सम्मिलित करते हुए बायी-बायी और श्री रतन लाल सोनी क्रेशर वाले के मकान को सम्मिलित करते हुए श्रीधर जी की दुकाने लेते हुए काणिया बोहरा की दूकान को लेते हुए इस बीच की सम्पुर्ण आबादी को सम्मिलित करते हुए श्री भगवती लाल वाणावत की दूकान पर आकर समाप्त (इस बीच की कुलिया आबादी)
21	21	शिवजी पान वाले की दूकान के कोर्नर को लेते हुए पश्चिम दिशा की गली में प्रवेश कर अहमद हुसैन के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर के मकान को लेते हुए अब्दुल हकिम कुरेशी के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर अयूब खां पठान के मकान को लेकर दक्षिण दिशा में गली में मुड़कर श्री असगर अली इस्माईल के मकान को सम्मिलित करते हुए बांयी बांयी ओर असगर अली इस्माईल के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर दूध की डेयरी लेते हुए बांयी ओर शब्बीर हुसैन किफायत अली हकिम की दूकान को लेकर पुनः मुड़कर इसी रास्ते पश्चिम में खिलोने वाले की दूकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर मोहम्मद हुसैन पिता अब्दुल हुसैन के मकान को लेते हुए डा. शौकत अली बोहरा के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर हुसैन पिता फिदा हुसैन साबुन वाले के मकान तक यहां से गली में प्रवेश कर पूर्व दिशा में बायी-बायी ओर असगर अली /कुरबान हुसैन के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर अली हुसैन/भुर जी बोहरा के मकान को लेते हुए बाहर रोड पर आकर उत्तर दिशा में सुजाउददीन /कुरबान हुसैन के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर वागर की चक्की की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए बाहर आकर मोची के मकान को लेते हुए बंशी महाराज की मिठाई की दूकान को लेते हुए बायी-बायी ओर कुर्बान हुसैन की दूकान को लेते हुए रोड क्रास कर पूर्व में अम्बेडकर मार्ग पर रास्ते रास्ते जाकर लोखन के कारखाने की गली से पुनः मुड़कर पश्चिम में मुड़कर

		पश्चिम में बायी-बायी ओर भगवती लाल कोठारी की दुकान व मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर श्री नुरुदीन दशोर वाले की दुकान तक आकर पुनः रोड पर आकर उत्तर दिशा में मुड़कर रामपोल दरवाजे से बाहर निकलकर मारवाड़ा के मिल को लेते हुए मीरा हुसैन के मकान को लेते हुए बगदीलाल नागदा की दुकान तक आकर पुनः दक्षिण में मुड़कर रामपोल दरवाजे के वहां आकर पुनः उत्तर में मुड़कर बायी-बायी मन्जूर हुसैन मंसुरी की दुकान लेते हुए बांयी बांयी ओर सैफूदीन बोहरा की दुकान को लेकर शिवजी पान वाले की दुकान को सम्मिलित कर समाप्त (इस बीच की कुलिया आबादी)
22	22	स्व. श्री वरदीचन्द्र मिस्त्री के मकान से शुरू होकर दक्षिण दिशा में दांयी दांयी और की आबादी को लेते हुए श्री विजय कुमार लोहर के मकान को लेते हुए कुमावत के मकान को लेते हुए आगे आकर मिस्त्री की दुकान को लेकर पश्चिम दिशा में मुड़कर दांयी दांयी और की आबादी लेते हुए मांगी लाल प्रजापत के मकान को लेते हुए दांयी दांयी और की आबादी लेते हुए गली से पुनः पूर्व में मुड़कर लतीफ खां की दुकान को लेते हुए दांयी दांयी और अब्दुल गौरी रंगरेज के मकान को लेते हुए दांयी दांयी और की आबादी को लेते हुए शंकर खारोल के मकान को लेते हुए दांयी दांयी और रज्जाक भाई/दाउद जी के मकान के कोर्नर से पुनः मुड़कर उत्तर दिशा में श्री जयराम भोई के मकान को लेते हुए दांयी दांयी और के मकान को लेते हुए श्री कालू सिंह के मकान को लेते हुए दांयी दांयी और श्री प्रजापत के मकान को सम्मिलित कर पुनः गली में पूर्व दिशा में मुड़कर श्री भंवर लाल प्रजापत के मकान को लेते हुए दांयी दांयी और प्रकाश वया के मकान को लेते हुए अहीर के मकान को सम्मिलित करते हुए दांयी दांयी और श्री नारायण अहीर बडवई वाले के मकान/दुकान को लेते हुए जिसमें (खारोल व अहिरो की गलियों की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करते हुए) पुनः बाहर रोड पर आकर दक्षिण दिशा में श्री मनोहर लाल हाथी (जैन) के मकान को लेते हुए श्री पूर्व अध्यक्ष श्रीमती रेखा चैबीसा के मकान को लेते हुए दांयी दांयी और कुम्हारों की गली में कोर्नर पर श्री किशनलाल चौबीसा के दुकानों को लेते हुए दांयी दांयी और महावीर मेडिकल स्टोर की दुकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर समस्त मेडिकल की दुकानों को सम्मिलित कर न्याज मोहम्मद अगवान के मकान को लेकर हास्पीटल की खाली पड़ी जमीन को लेते हुए पश्चिम में मुड़कर लोखन के कारखाने की तरफ मुड़कर रास्ते रास्ते अम्बेडकर मार्ग तक नुक्कड़ पर जाकर पुनः उत्तर में मुड़कर बांयी बांयी ओर की दुकाने लेकर लोखन कारखाने को सम्मिलित कर उत्तर में मुड़कर स्व. आबिद अली पिता फखरुदीन बोहरा के मकान वाली गली व सामने वाली साईड को लेकर पुनः

		उदयपुर निम्च मार्ग पर आकर पश्चिम दिशा में गती में मुड़कर जमनालाल वैट्यरा ज के मकान को लेते हुए दांयी दांयी ओर श्री जयराम भोई की दूकान को सम्मिलित करते हुए दांयी दांयी ओर की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए जयराम भोई के मकान के सामने वाली साईड गुसाई व कुम्हारों के मकान को लेते हुए बाहर आम रोड पर आकर उत्तर दिशा में मुड़कर जहुर भाई के मकान को लेते हुए यूसुफ पिता आजमूदीन के मकान को लेते हुए सरदार सिंह भाटी के मकानात को लेते हुए बांयी बांयी ओर श्री स्व. बशीर खां पठान (मास्टर सा.) के मकान के आस पास की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए श्री चुन्नी लाल प्रजापत के मकान को लेते हुए श्री बगदीलाल प्रजापत के मकान को लेते हुए दांयी ओर श्री मान शक्तावत सा.की मूर्ति स्थल/पार्क को सम्मिलित करते हुए स्व. श्री वरदीचन्दमिस्त्री के मकान/दूकान पर समाप्त (इस बीच की कुलिया आबादी)।
23	23	श्री शम्भुसिंह राठोड़ के मकान को लेते हुए बायी-बायी ओर मालु कालोनी की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए बायी-बायी ओर श्री रतनलाल सोनी की दुकान से निचे उत्तर कर हास्पीटल की बाउन्ड्री के पास निचे उतरते हुए, विजयसिंह चैहान का घर भागचन्द भोई का कुआ, गंगाराम बलाई का घर लेते हुए, धारता रोड पर प्रहलाद सामरिया के घर के पास होकर बायी-बायी ओर चलते हुए, मोहनलाल सुथार के मकान को लेते हुए, बायी-बायी ओर नृसिंह आयल मील को लेते हुए बायी-बायी ओर की आबादी लेते हुए, मालवीय लौहार के मकानात लेते हुए, मदनपुरा की सम्पूर्ण आबादी नगर पालिका क्षेत्र की सम्मिलित करते हुए, पुनः रोड पर आकर दक्षिण दिशा में भीण्डर की तरफ मुड़कर बायी-बायी ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए गाड़रियों की भागल लेते हुए, पतवारिया/कब्रिस्तान को सम्मिलित करते हुए, प्रभात नगर को लेते हुए धारता रोड पर स्व. शौभालाल चौबीसा (पामणा) की जमीन को लेते हुए, बायी-बायी ओर चैधरी जी की दुकान के कोर्नर से दक्षिण में मुड़कर फतहलालजी तेली के मकान को लेते हुए, रतनदास के मकान को लेते हुए, सूरजपोल राजू महाराज की होटल के पास वाली दुकान को सम्मिलित कर पुनः रामपोल की तरफ मुड़कर उत्तर दिशा में आम रास्ते चलते हुए धारता रोड पर जाकर श्री नारायण जी खटीक के मकान को लेते हुए, बायी-बायी ओर जनता मेडिकल स्टोर को लेते हुए, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सम्मिलित करते हुए, श्री शम्भुसिंह राठोड़ के मकान के वहा जाकर समाप्त। (इस बीच की कुलिया आबादी)।
24	24	पुलिस थाने को लेते हुए कृषि विभाग के गोदाम को लेते हुए बांयी बांयी ओर हिरो के शौरूम को लेते हुए अकाल भेरूजी को लेते हुए किरो के मकान सम्मिलित करते

		<p>हुए बांयी बांयी ओर ख्वाजा मार्केट को लेते हुए बांयी बांयी ओर सुख सागर को लेते हुए बांयी बांयी ओर की आबादी को लेते हुए बिजली विभाग के कार्यालय व कालोनी लेते हुए पिछे नाकोड़ा नगर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिथि गृह को लेते हुए पंचायत समिति के सामने स्थित कालोनी/वैशाली नगर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए कृषि मण्डी को लेते हुए तहसील कार्यालय के आस पास की आबादी लेते हुए जीवन बीमा निगम कार्यालय के आस पास की आबादी को लेते हुए बाहर सड़क पर आकर उत्तर दिशा में बाहर आकर बांयी बांयी ओर ज्योति नगर की आबादी को लेते हुए आदीनाथ आयल मिल को लेते हुए बायी-बायी ओर जाकर के पुलिया से घुमकर पुनः दक्षिण दिशा में बांयी बांयी ओर की आबादी लेते हुए रेल्वे स्टेशन को लेते हुए जेतपुरा स्कुल से आगे जेतपुरा 132 के बी को लेते हुए पुनः अहिरों के मन्दिर लेते हुए आम रोड काम्पलेक्स को सम्मिलित करते हुए पंचायत समिति को लेते हुए बांयी बांयी ओर भंवर सिंह के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर राधा विहार को लेते हुए करणी माता के आस पास की आबादी को लेते हुए कब्रिस्तान को सम्मिलित करते हुए दवेला हनुमान जी को लेते हुए बांयी बांयी ओर श्री अजय सिंह चावडा के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर जीवन सिंह शक्तावत के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर नीचे गली में उत्तरकर लुहारो की गली कुमावतो की गली व आमेटा कालोनी की आबादी को सम्मिलित करते हुए पुनः मन्जुर भाई पान वाले के मकान को सम्मिलित करते हुए बोहरा कुंई लेते हुए दवेला तालाब बंगला को लेते हुए अन्दर घुसकर दवेला तालाब से बाहर आम रोड पर आने वाली दोनों साईंड गजबन गार्डन व उदय बाग/भंवर बाग को सम्मिलित करते हुए पुनः बाहर आकर दक्षिण दिशा में रास्ते रास्ते चलकर पुलिस थाना के वहां समाप्त । (इस बीच की कुल आबादी)</p>
25	25	<p>भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ग्राउण्ड के पिछे वाले भाग में (दक्षिण दिशा में) बांयी बांयी ओर की आबादी लेते हुए यादव मोहल्ला व खटीक मोहल्ला की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए पुनः बाहर आकर श्री बाबू लाल यादव के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर स्व. शौकत खां पठान के मकान को लेते हुए श्री हकिमुददीन पिता भूर जी बोहरा के मकान को लेते हुए गली के नुक्कड़ से बाहर निकलकर पूर्व में मुड़कर बांयी बांयी ओर की आबादी लेते हुए लुहारो की गली की आबादी लेते हुए बाहर आकर पुनः मुड़कर चमन खटीक की दूकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर आजाद बाठेडा के मकान को लेते हुए पुनः रोड पर आकर उत्तर में मुड़कर मिठु खां के मकान को लेते हुए बांयी बांयी ओर नूरा जी सेमारी वालों की</p>

	<p>पोल को लेते हुए बांयी बांयी ओर पिनारों की मस्जिद को लेते हुए भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को सम्मिलित करते हुए बांयी बांयी ओर मदन दक के मकान को लेते हुए प्रकाश चन्द्र पिता बाबू लाल जी के मकान को लेते हुए सुल्तान शहीद रोड की तरफ मुड़कर दोनों ओर की आबादी को लेते हुए पुनः सुल्तान शहीद रोड पर जाकर दांयी-दांयी ओर बोहरो की नई बस्ती को लेते हुए दूदा जी बोहरा के मकान को लेते हुए सुल्तान शहीद बोहरा बाग को लेकर पुनः बांयी बांयी ओर मुड़कर दलीचन्द खारोल के खेत के पास से गुजरते हुए बोहरा समाज के मुसाफिर खाने को सम्मिलित करते हुए शक्तावत साहब के कुंए की तरफ जाने वाले मार्ग की बांयी बांयी ओर की आबादी को लेते हुए नया तालाब मदन सागर पर जाकर समाप्त (इस बीच की कुलिया आबादी) ।</p>
--	--

अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका भीण्डर

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।